

## प्रेस नोट

थाना मुजरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चैकिंग के दौरान एक केंटर से करीब 07 लाख रुपये कीमत की कुल 89 पेटी हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए चालक को गिरफ्तार किया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/निष्कर्षण/ बिक्री व वितरण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 16/17.10.2019 की रात्रि में स्वाट टीम व थाना मुजरिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुजरिया चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान सहसवान की तरफ से आती हुई केंटर गाडी नं0 UP30T 2394 से 89 पेटी (कुल 4272 क्वार्टर) हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब IMPERIAL BLUE (कीमत लगभग 07 लाख रुपये) बरामद करते हुए चालक श्यामू रावत पुत्र नन्द किशोर निवासी भक्तिखेडा थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया । पुलिस टीम द्वारा की गयी पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त द्वारा अवैध शराब से भरा केंटर पानीपत से बिहार ले जाया जा रहा था । उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 123/19 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया ।

विवरण बरामदगी- केंटर गाडी नं0 UP30T 2394 से 89 पेटी (कुल 4272 क्वार्टर) हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब IMPERIAL BLUE (कीमत लगभग 07 लाख रुपये) ।

गिरफ्तार अभियुक्त- चालक श्यामू रावत पुत्र नन्द किशोर निवासी भक्तिखेडा थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ ।

विवरण पुलिस टीम- 1. प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम राजीव कुमार शर्मा मय टीम, 2. थानाध्यक्ष मुजरिया धर्मन्द्र सिंह, 3. उ0नि0 प्रथ्वीराज सिंह, 4. कां0 1410 जयवीर सिंह, 5. कां0 1411 विकास कुमार थाना मुजरिया जनपद बदायूं

सोशल मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद बदायूं ।